

**संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण  
नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त  
गिरफ्तार**

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 312/20 धारा 376/506 भादवि, ¾ पाक्सो एक्ट व 66 (डी) आईटी एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता इजहार अली पुत्र रमजान अली निवासी ठूठीबारी थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 02.11.2020 को वादी की नाबालिग पुत्री के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना कारित करते हुए दुष्कर्म की वीडियो क्लिप बनाकर सार्वजनिक करने की धमकी दी गयी थी जिसके उपरान्त वादी द्वारा दिनांक 04.11.2020 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें आज दिनांक 05.11.2020 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण** – प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल श्री अनिल कुमार पाण्डेय, हे0का0 चा0 रामअचल प्रसाद, का0 आलोक मणि।

**शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

- थाना महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

**पीआरवी आफ द डे**

**पीआरवी 1486 द्वारा दो पक्षों में हो रहे विवाद को कराया गया शान्त** – पीआरवी 1486 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत धसवा से इवेन्ट संख्या 03928 से कालर ने मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 08 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर दोनो पक्षों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना दुधारा के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

**पीआरवी स्टाफ** – मु0आरक्षी श्यामसुन्दर मिश्रा, आरक्षी रंजन राजभर, हो0चा0 बृजेश यादव।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 151 वाहनो से 142500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया** आज दिनांक 05-11-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 151 वाहनो से 142500रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।